



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 11

पटना, बुधवार,

21 फाल्गुन 1946 (श10)

12 मार्च 2025 (ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-12
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	13-14
पूरक	---
पूरक-क	15-16

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

4 फरवरी 2025

सं० 6/गो०-34-06/2016-605—वाणिज्य-कर विभाग के राज्य-कर उपायुक्त एवं राज्य-कर सहायक आयुक्त स्तर के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर दिनांक 31.03.2025 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	प्रतिनियुक्ति कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री अभिनव कुमार / 242	राज्य-कर उपायुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना	राज्य-कर उपायुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना
2	विनिता बत्स / 219	राज्य-कर उपायुक्त, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना	राज्य-कर उपायुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल, पटना
3	श्री अरुण नाथ / 265	राज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	राज्य-कर सहायक आयुक्त, लखीसराय अंचल, लखीसराय
4	आकांक्षी / 293	राज्य-कर सहायक आयुक्त, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज	राज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना दक्षिणी अंचल-2

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी संबंधित अंचल प्रभारी के निदेश में कार्य करेंगे एवं प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात अपने मूल पदस्थापन के लिए स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।

4 फरवरी 2025

सं० 6/गो०-34-02/2019-606—कैसर तौहिद (कोटि क्रमांक-47), राज्य-कर अपर आयुक्त, अंकेक्षण, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि कैसर तौहिद, राज्य-कर अपर आयुक्त, अंकेक्षण, पूर्णियाँ प्रमंडल के कार्यों के अतिरिक्त राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।

24 फरवरी 2025

सं० 6/नि०प्रति०नियु०-01-05/2023-966—विभागीय अधिसूचना संख्या 4683 दिनांक 29.12.2023 द्वारा श्री सुबोध राम, सेवानिवृत्त राज्य—कर विशेष आयुक्त (सेवानिवृत्ति की तिथि—31.12.2023) को सेवानिवृत्ति के उपरान्त योगदान की तिथि से प्रथमतः दो वर्षों के लिए अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए संविदा के आधार राज्य—कर विशेष आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था।

श्री सुबोध राम द्वारा पारिवारिक कारणों से अपनी सेवा आगे जारी रखने में असमर्थता जताते हुए दिनांक 01.11.2024 के पूर्वाह्न के प्रभाव से राज्य—कर विशेष आयुक्त (संविदा) के पद से त्याग पत्र दिया गया।

श्री सुबोध राम के त्याग पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त इसे दिनांक 01.11.2024 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

6 मार्च 2025

सं० स०क०स्था० (मु०)-23/2023-1613—केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न को रोकने एवं तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु (The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005), प्रख्यापित कर लागू किया जा चुका है। उक्त अधिनियम को प्रभावकारी बनाने हेतु राज्य सरकारों से आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा की गई है।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर राज्यपाल बिहार द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार संरक्षण सेवा के गठन और उसमें भर्ती की प्रक्रिया तथा अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।—

- (i) यह नियमावली "बिहार संरक्षण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।— इस नियमावली में, जब तक संदर्भ के विरुद्ध अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (ii) "विभाग" से अभिप्रेत है बिहार कार्यपालिका नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट समाज कल्याण विभाग;
- (iii) "राजस्व पर्षद" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व पर्षद;
- (iv) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
- (v) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार राज्य का बिहार संरक्षण सेवा;
- (vi) "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार संरक्षण सेवा में इस नियमावली के उपबंधों के अधीन नियुक्त व्यक्ति;
- (vii) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा विभागीय प्रोन्नति के लिए सम्यक रूप से गठित समिति;
- (viii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार बिहार;

- (ix) "नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग;
- (x) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;
3. **संवर्ग का गठन ।** - (i) इस नियमावली के अन्तर्गत संवर्ग की संरचना एवं पदसोपान निम्नवत होंगे:-

क्र०	पद का नाम	नियुक्ति का स्रोत	स्तर
1	2	3	4
1	अनुमंडलीय संरक्षण पदाधिकारी	सीधी भर्ती	राजपत्रित (मूल कोटि)
2	जिला संरक्षण पदाधिकारी/संरक्षण पदाधिकारी (मु०)	प्रोन्नति से	राजपत्रित (प्रथम प्रोन्नति)
3	राज्य संरक्षण पदाधिकारी	प्रोन्नति से	राजपत्रित (द्वितीय प्रोन्नति)

सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान एवं स्वीकृत बल वही होगा, समय-समय पर सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

(ii) यह राज्य सेवा होगी और समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।

4. **नियुक्ति।-**

- (i) इस सेवा की "मूल कोटि" के पदों को आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी नियुक्ति से तथा प्रोन्नति के पदों को वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति से भरा जाएगा।
- (ii) सेवा संवर्ग के सभी पदों पर महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी।
- (iii) नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा अधिसूचित आरक्षण के प्रावधान इस सेवा में लागू होंगे।

5. **नियुक्ति हेतु अर्हता एवं प्रक्रिया ।-**

- (i) **उम्र सीमा-** सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु विज्ञापन वर्ष के एक अगस्त को 21 (इक्कीस) वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर नियत की जायेगी।
- (ii) **शैक्षणिक योग्यता ।-** इस सेवा की मूल कोटि (बेसिक ग्रेड) में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता, मनोविज्ञान अथवा विधि में से एक विषय से स्नातक डिग्री होना आवश्यक होगा। सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा विशिष्ट परीक्षा अथवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, जिसमें अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक विषयों यथा (क) मनोविज्ञान (ख) विधि में से कम से कम एक विषय लेना अनिवार्य होगा।
- (iii) **लिखित परीक्षा** - आयोग अपनी विहित प्रक्रिया के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकेगा।
- (iv) **साक्षात्कार** - आयोग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार, आयोग अपनी विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत लेगा।

- (V) **विषय, पाठ्यक्रम तथा अंकों का निर्धारण**- लिखित परीक्षा के लिए विषय, पाठ्यक्रम एवं उनके लिए अंकों का निर्धारण तथा साक्षात्कार के लिए अंकों का निर्धारण विभाग के परामर्श से आयोग द्वारा किया जायेगा।
- (VI) **रिक्तियों की गणना एवं आयोग को इसकी सूचना**- प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल तक विभाग उस वर्ष बिहार संरक्षण सेवा में सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगा और उसके अनुसार सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को 30 अप्रैल तक प्रेषित करेगा।
- (vi) **नियुक्ति**- आयोग विशिष्ट अथवा संयुक्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर विहित प्रक्रिया अन्तर्गत आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा मेधा सूची सहित विभाग को प्रेषित करेगा।
6. **वरीयता। -**
- (i) इस नियमावली के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों की आपसी वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर की जायेगी।
- (ii) किसी विवाद की स्थिति में सदस्यों की वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।
7. **परिवीक्षा अवधि। -**
- (i) मूल कोटि के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाली प्रत्येक पदाधिकारी पदग्रहणकी तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी।
- (ii) परिवीक्षा अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर यदि किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो विभाग उसकी परिवीक्षा अवधि एक साल बढ़ा सकेगा परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। बढ़ायी गयी अवधि में भी किसी व्यक्ति की सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो परिवीक्षा समाप्त की जा सकेगी।
8. **सम्पुष्टि।-** परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि के पात्र होंगे :-
- (i) निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना, राजस्व पर्षद द्वारा प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता।
- (ii) इस अवधि में उसका आचरण और सेवा संतोषजनक एवं नियमित रही है।
9. **प्रोन्नति।-**
- (i) इस सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसाओं से की जायेगी।
- (ii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।
- (iii) ऐसी प्रोन्नतियों के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा, अर्थात् कालावधि वही होगी, जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जायगी।
10. **प्रशिक्षण। -** इस सेवा के सदस्य को प्रशिक्षण के लिए राज्य में या राज्य से बाहर या विदेश में विभाग द्वारा भेजा जा सकेगा।
11. **अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ। -** सेवा के सभी सदस्यों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।

12. **अवशिष्ट मामले।** - जो मामले इस नियमावली में समाहित नहीं हैं उनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक संहिता / नियमावली/संकल्प/निर्देश में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए किए गए प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू होंगे।
13. **कठिनाईयों का निराकरण।**- इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई हो तब विधि विभाग के परामर्श से विभाग द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, जो अंतिम होगा।
- 14 **निरसन एवं व्यावृत्ति।** -
 - (i) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस संबंध में निर्गत नियमावली/संकल्प/आदेश एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित समझा जायेगा।
 - (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी. इस नियमावली के पूर्व नियमावली, संकल्प, आदेश एवं अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जाएगी, मानों यह उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-अस्पष्ट, अपर सचिव।

The 6th March 2025

No. Social Wel.Estt.(HQ)-23/2023-1613---The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 has been promulgated and implemented by the Central Government to prevent harassment against women and take necessary action in this regard. The State Governments have been expected to take necessary steps to make the said Act effective.

Therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following process/rules to constitute Bihar Protection Service regularization of recruitment of service conditions.

1. **Short title, extent and commencement:-**
 - (i) These Rules may be called as the Bihar Protection Service (recruitment and service conditions) Rules, 2025.
 - (ii) It shall extend to the whole State of Bihar.
 - (iii) It shall come into force with effect from the date of publication in official gazette.
2. **Definition :-**In these rules, unless the context otherwise requires.
 - (i) 'Government' means, the Government of Bihar
 - (ii) "Department" means as specified in Bihar Rules of Executive Business, Social Welfare Department.
 - (iii) Board of Revenue means Board of Revenue, State of Bihar.
 - (iv) Commission means, Bihar Public Service Commission.
 - (v) Service means' Bihar Protection Service.
 - (vi) 'Member of Service' means, the person appointed under the provisions of these rules in Bihar Protection Service.
 - (vii) "Department Promotion Committee" means, the committee duly constituted by the State Government for Departmental promotion.
 - (viii) "Appointment Authority" means, State government of Bihar.
 - (ix) "Controlling Authority" means, Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Social Welfare Department.
 - (x) "Year" means, the financial year i.e. from 1st April to 31 March of next year.

3. **Constitution of Cadre :-** (i) the following would be structure and hierarchy under this rule:-

Sl. No.	Name of Post	Source of recruitment	Level
1	Sub-divisional Protection Officer	Direct recruitment	Gazetted (basic grade)
2	District Protection Officer/Protection Officer (Head quarter)	By promotion	Gazetted (first promotion level)
3	State Protection Officer	By Promotion	Gazetted (second promotion level)

The pay scale, sanctioned strength of the different posts of cadre of service would be the same as may be determined by the Government from time to time.

- (ii) The cadre will be State cadre and work under the Administrative control of the Social Welfare Department.

4. **Appointment:-**

- (i) The posts of category of this service would be recruited directly on the recommendation of the commission and the promotional post would be filled up by inter-se-seniority-cum-merit.
- (ii) Only women candidates will be eligible for appointment on all of the posts of the cadre.
- (iii) For appointment and promotions, the provisions of reservation will apply as it is notified by the State Government time to time.

5. **Qualifications and process for appointment:-**

- (i) **Limitation of age:** -For direct recruitment, the minimum age of the candidates would not be less than 21 (Twenty One) years on 1st August. Maximum age would be the same as it is determined by the General Administration Department of the Government time to time.
- (ii) **Academic qualification :-**The eligibility of the candidates for appointment in basic grade of this service would be graduate with one subject, Psychology or law. For direct recruitment in service, the special examination or combined competition would be arranged by the commission which in addition to compulsory subject, one of the optional subject Psychology or Law would be mandatory.
- (iii) **Written Examination:** - The commission will arrange a written examination according to their prescribed process.
- (iv) **Interview:** - The Commission would take interview of the candidates selected on the basis their marks obtained in the examination under their prescribed process
- (v) **Subject Syllabus and determination of marks :-** Subjects, syllabus and determination of marks for written examination and determination of marks for interview would be done by the commission in consultation with the Department.
- (vi) **Calculation of vacancies and information to commission in this regard: -** The department will calculate vacancies on 1st April of every year to be filled

- up by direct recruitment in Bihar protection service and communicate it to the commission till 30th April
- (vii) **Appointment:-**The commission by arranging special or combined competitive examination under prescribed procedure and under the category wise reservation, make recommendation of selected candidates in order of merit against the vacancies to the Department.
6. (i) **Seniority :-**The inter-se-seniority of the members appointed by direct recruitment under this rules, based on the criteria determined by the General Administration Department in this regard.
- (ii) In the event of any dispute, the determination of seniority of the members would be decided in accordance with criteria fixed by General Administration Department.
7. **Probation period:-**
- (i) Every officer appointed against vacancies of post of basic grade, will remain in probation for the period of one year from the date of joining.
- (ii) During the period of probation, it would be mandatory to undergo prescribed training fixed by the Government.
- After completion of probation period, if the service of an individual is not found satisfactory then the Department would extend his period of probation for one more year. But total period of probation would not be more than two years. Even in the extended period if the service of any individual is not found satisfactory, then probation will be terminated.
8. **Confirmation:-**Persons appointed on probation, upon the end of the probation period would be eligible for confirmation under the following conditions:-
- (i) Complete fixed training, to pass out Departmental examination provisioned by the Board of Revenue.
- (ii) During this period their conduct and service are found satisfactory and regular.
9. **Promotions:-**
- (i) The Departmental promotion committee will recommend officers of this service for promotions on the basis of seniority-cum-merit.
- (ii) The Constitution of Departmental Promotion Committee will be made by a separate order.
- (iii) For such promotions, minimum qualifying service i.e. time period would be the same as determined by the General Administration Department time to time.
10. **Training:-**For training, the Members of this service will be sent within the State or the out of State or on foreign assignment by the Department.
11. **Discipline, Appeal and Punishments:-** All the Members of this service, will be subject to Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended).
12. **Residual matters:-**Any issue which is not incorporated in these rules, in this regard, the relevant code/Resolutions/direction made by the State Government will prevail with the equivalent level employees.
13. **Removal of difficulties:-**If any difficulty arises in enforcing the provisions of this rule, then with the advice of the Law Department, it will be determined, which will be final.
14. **Repeal and savings:-**
- (i) Rules/ Resolution/ Order and direction dealing with subject Rules stand repealed.

- (ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said rules, Resolutions/Order and instructions prior to coming into force these rules, will be construed as if the Rules were in force on the day it had been done or any such action taken.

By order of Governor of Bihar,
Sd/-Illegible, Additional Secretary.

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचनाएं

4 मार्च 2025

सं० प्र०-II-अवैध खनन-83/24-1343/एम०]—श्री रणधीर कुमार, खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय अतिरिक्त प्रभार मुंगेर को संकल्प ज्ञापांक 2346 दिनांक 13.06.2024 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, पटना निर्धारित किया गया। श्री रणधीर कुमार के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4223/एम० दिनांक 07.10.2024 से विभागीय कार्यवाही संचालित है।

कार्यहित के दृष्टिकोण से श्री रणधीर कुमार, खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय अतिरिक्त प्रभार मुंगेर (सम्प्रति निलंबित), मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए खान एवं भूतत्व विभाग, मुख्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार के विरुद्ध उक्त विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

4 मार्च 2025

सं० प्र०-I-रा०(आ०)-10/2024-1340/एम०]—श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू-भौतिक शास्त्री), खनिज विकास पदाधिकारी, सारण को संकल्प ज्ञापांक 4997 दिनांक 26.11.2024 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय अंचल कार्यालय, मगध (गया) निर्धारित किया गया। श्री लाल बिहारी प्रसाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1297/एम० दिनांक 04.03.2025 से विभागीय कार्यवाही संचालित है।

कार्यहित के दृष्टिकोण से श्री लाल बिहारी प्रसाद (भू-भौतिक शास्त्री), तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, सारण (सम्प्रति निलंबित), अंचल कार्यालय, गया को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए खान एवं भूतत्व विभाग, मुख्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद, अपर सचिव।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी 2025

सं० प्र०-07/रा०अ०स्था०-04-07/2024-217—श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना के सेवानिवृत्ति दिनांक 28.02.2015 के उपरान्त राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-270 दिनांक-27.03.2015 द्वारा संविदा पर नियोजित किया गया है। समय-समय पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में विभाग द्वारा इनकी सेवा विस्तारित की जाती रही है।

2. श्री यादव की संविदा अवधि विभागीय अधिसूचना संख्या-226 दिनांक-05.03.2024 द्वारा अगले 01 (एक) वर्ष अर्थात् 69 वर्ष से 70 वर्ष तक (फरवरी 2025 तक) के लिए विस्तारित की गई है। श्री यादव की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका संख्या-3(2)(ख)(V) को शिथिल करते हुए इनकी संविदा अवधि अगले 01 (एक) वर्ष अर्थात् 70 वर्ष से 71 वर्ष तक (दिनांक 28.02.2026 तक) के लिए अथवा अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति होने जो पहले हो तक के लिए विस्तारित की जाती है।

3. योगदान के समय श्री यादव को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. संविदा पर नियोजन अवधि में इन्हें विभागीय कार्यालय आदेश सं०-608 दिनांक-23.07.2024 के आलोक में मासिक मानदेय देय होगा। साथ ही विभागीय अधिसूचना सं०-270 दिनांक-27.03.2015 की संगत अन्य कंडिकायें पूर्ववत् प्रभावी रहेगी।

5. नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने वाले कर्मों के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा संपन्न किया जायेगा।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
देवेन्द्र कुमार दर्द, उप-सचिव।

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

18 सितम्बर 2023

सं० 11/अ०प्र०-13-20/2023-5301—सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2522(S) दिनांक-09.05.2023 के द्वारा किये गये अनुरोध के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-2756 (अनु०) दिनांक 24.05.2023 के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के पत्रांक-622(अनु०) दिनांक-14.06.2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए दायित्व रहित प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत निम्नवर्णित पथ/पथांश को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता है:-

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ/पथांश का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी०)
1	बेनीपुर/दरभंगा	PMGSY योजनान्तर्गत निर्मित नारबांध से सुपौल पथ।	5.00 K.M
2	बेनीपुर/दरभंगा	PMGSY योजनान्तर्गत निर्मित टी०१ से मुर्तजापुर पथ।	2.6 K.M

2. पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-1548(S) सहपठित ज्ञापांक-1549(S) दिनांक-25.02.2020 में वर्णित प्रावधान के आलोक में संदर्भित पथ के हस्तान्तरण प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय दूबे, विशेष सचिव।

6 फरवरी 2025

सं० 11/अ०प्र०-07-25/2024-1538—सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-4639(S) दिनांक-20.09.2024. विभागीय पत्रांक-7792 दिनांक-25.11.2024 एवं विभागीय पत्रांक-8035 दिनांक-05.12.2024 के अनुपालन में क्रमशः कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार (वैशाली) के पत्रांक-11(अनु०) दिनांक-02.01.2025 तथा पत्रांक-2469(अनु०) दिनांक-25.11.2024 से प्राप्त दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नांकित पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता है:-

क्रमांक	कार्यप्रमंडल/जिला	पथ/पथांश का नाम	कुल लम्बाई (कि०मी०/मी०)	हस्तांतरित पथ/पथांश की लम्बाई (कि०मी०)
1	2	3	4	5
1	महनार/वैशाली	सहदेई बुजुर्ग प्रखण्ड के टी०-1 अंबेडकर चौक मुरौवतपुर से अंधराबड़ तक (BR36P3R27)	11.71 कि०मी०	1.10 कि०मी० (चैनेज 0.00 कि०मी० से 1.10 कि०मी०)

2. अधिग्रहित पथों के मामले में पथ का विधिवत हस्तान्तरण के पश्चात् यदि किसी पथ/पथांश में संबंधित विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तो उसके DLP के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय स्वामित्व वाले हस्तांतरित पथ/पथांश में किये गये कार्य का समायोजन पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने डी०पी०आर०/कार्य में समाहित कर इसकी सूचना ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का **Unfruitful Expenditure** से बचा जा सके।

3. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार, अवर सचिव।

29 जनवरी 2025

सं० 11/अ०प्र०-07-21/2024-1075—कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर का पत्रांक-492 दिनांक-08.06.2024 तथा पत्रांक-621 दिनांक-11.07.2024, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर (मुंगेर) का पत्रांक-1070 दिनांक-21.06.2024, पत्रांक-1597 दिनांक-11.09.2024, समाहरणालय, मुंगेर का पत्रांक-2007 दिनांक-10.09.2024 विभागीय पत्रांक-5634 दिनांक-23.09.2024 एवं अन्य विभागीय अनुवर्ती पत्र के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के पत्रांक-2199 दिनांक-19.11.2024 एवं पत्रांक-2317 दिनांक-05.12.2024 से प्राप्त दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नांकित पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता है:-

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ/पथांश का नाम	कुल लंबाई (कि०मी०)	हस्तांतरित पथ/पथांश की लंबाई (कि०मी०)
1	खड़गपुर-तारापुर (मुंगेर)	L026 PWD रोड तारापुर खड़गपुर से सताहरा	1.80 कि०मी०	1.80 K.M CH-0.00 K.m-1.80 K.M
2		रणगांव-भगलपुरा पथ	6.20 कि०मी०	CH-0.00K.m to 2.60K.m(2.60 k.m)
3		खड़गपुर-तारापुर (एस०एच०) से मधुराग्राम होते हुए विसय गाँव तक भाया जमुना गढ़ टीला	4.15 कि०मी०	CH-2.040K.m to 2.390K.m(350 m)

2. अधिग्रहित पथों के मामले में पथ का विधिवत हस्तान्तरण के पश्चात् यदि किसी पथ/पथांश में संबंधित विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तो उसके DLP के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय स्वामित्व वाले हस्तांतरित पथ/पथांश में किये गये कार्य का समायोजन पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने डी०पी०आर०/कार्य में समाहित कर इसकी सूचना ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का **Unfruitful Expenditure** से बचा जा सके।

3. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मुकुल सहाय, उप सचिव।

29 जनवरी 2025

सं० 11/अ०प्र०-07-22/2024-1073—जिला पदाधिकारी, मुंगेर का पत्रांक-2007 दिनांक-10.09.2024 कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मुंगेर का पत्रांक-815 दिनांक-12.09.2024 तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर का पत्रांक-1614 दिनांक-13.09.2024 तथा विभागीय पत्रांक-7281 दिनांक-30.10.2024 एवं विभागीय पत्रांक-7970 दिनांक-02.12.2024 के अनुपालन में क्रमशः कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के पत्रांक-1995 दिनांक-30.10.2024 तथा पत्रांक-2316 दिनांक-05.12.2024 से प्राप्त दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के समीक्षोपरांत विभागीय स्वामित्व वाले निम्नांकित पथों/पथांशों को पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन हस्तांतरित किया जाता है:-

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ/पथांश का नाम	कुल लम्बाई (कि०मी०/मी०)	हस्तांतरित पथ/पथांश की लम्बाई (कि०मी०)
1	2	3	4	5
1	खड़गपुर-तारापुर (मुंगेर)	वंशीपुर से धोबई भाया चकधोबई	1.72 कि०मी०	CH-0.00 Km to 0.80 Km(800 m)
2		L044 PWD रोड असरगंज गनैली मोहनगंज से धर्मराय बिहमा ब्राह्मण टोला (Track- 44)	2.18 कि०मी०	CH-0.00 Km to 1.25 Km(1250 m)
3		L044 PWD रोड असरगंज गनैली मोहनगंज से धर्मराय बिहमा पथ के चौरा नदी पर पुल।	35.40 मी०	35.40 m
4		सुल्तानगंज देवघर पथ में बिहमा के पास करबल्ला से कच्ची काँवरिया पथ।	1.67 कि०मी०	1.67Km

2. अधिग्रहित पथों के मामले में पथ का विधिवत हस्तान्तरण के पश्चात् यदि किसी पथ/पथांश में संबंधित विभाग द्वारा कार्य कराया गया है तो उसके DLP के बाद ही कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय। विभागीय स्वामित्व वाले हस्तांतरित पथ/पथांश में किये गये कार्य का समायोजन पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपने डी०पी०आर०/कार्य में समाहित कर इसकी सूचना ग्रामीण कार्य विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का **Unfruitful Expenditure** से बचा जा सके।

3. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मुकुल सहाय, उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 51—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

सं० 214--मैं रोजी कुमारी, पिता- सुरेश शर्मा, पति-प्रेम शंकर सिंह पता- हरदेव विहार, मूलचंद पथ, वार्ड सं०- 54 थाना- कंकड़बाग जिला पटना- 800020, बिहार, शपथ पत्र सं०- 601 दिनांक- 28/11/2024 द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे मैट्रिक एवं पी एच डी० के प्रमाण पत्रों में मेरा नाम रोजी कुमारी अंकित है। परंतु आधार कार्ड में रोजी सिंह अंकित है। अब मैं भविष्य में सभी कार्यों हेतु रोजी कुमारी के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

रोजी कुमारी।

No. 214--I Rojee Kumari, D/O Suresh Sharma, W/o Prem Shankar Singh, R/O - Hardev Vihar, Mulchand Path, Ward No-54, P.S- Kankarbagh Dist-Patna- 800020, Bihar do hereby solemnly affirm and declare vide affidavit no.- 601 dated 28/11/2024 that in my matric & PH.D my name is mentioned Rojee Kumari but my name is mentioned in my aadhar card as Rojee Singh. That I shall be known as Rojee Kumari for all purposes.

Rojee Kumari.

No. 215-- I, Avishek Kumar S/o Bijay Kumar Saha, Mohalla-Belan Bazar, P.O.-Munger, P.S.- Kasim Bazar, Distt.-Munger (Bihar)-811201 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-6717 dt. 28.12.24 that my minor Son Shivam whose aadhar No. is 308252483808 now will be known as Shivam Kumar for all purposes.

Avishek Kumar.

No. 216--I, Dinanath Pandey S/o Parasnath Pandey, R/o 66A CDA Coloney, 121 Lalbabu Market, P.S.- Shashtri Nagar. Patna, Bihar- 800023 do hereby solemnly af- firm and declare as per Aff. No. 11919 dt. 30-12-24 that my name is written is my daughter Nisha Kumari's 10th all Educational documents as Dinanath Panday which is wrong. As per my Aadhar Card my true and correct name is Dinanath Pandey. Dinanath Panday and Dinanath Pandey both are same and one person. From now I will be known as Dinanath Pandey for all Purposes.

Dinanath Pandey.

No. 217--I, Usha Pandey W/o Dinanath Pandey R/o 66A CDA Colony, 121 Lalbabu Market, P.S.- Shashtri Nagar Patna Bihar- 800023 do hereby solemnly af- firm and declare as per aff. No. 11920 dt. 30-12-24 that my name is written in my daughter Nisha Kumari's 10th all Education documents as Usha Panday which is wrong. As per Aadhar Card my true and correct name is Usha Pandey Usha Panday and Usha Pandey both names are same and one person. From now I will be known as Usha Pandey for all purposes.

Usha Pandey.

No. 218-- I, Deepak Kumar, S/o Surendra Kumar, R/o-Maniyawan House, Nalanda Colony, East Indira Nagar, Behind Suman Palace, Kankarbagh, Patna-800020 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-11889 dt. 04.01.25 that Deepika Sakshi is my minor daughter Her name is written as Deepika in her Aadhar Card. Which is wrong. As per CBSE Class 10th all educational documents her correct name is Deepika Sakshi Deepika and Deepika Sakshi both names are same and one person. From now she will be known as Deepika Sakshi for all purposes.

Deepak Kumar.

सं० 219--मैं मयंक कुमार सिंह पिता डा. संजय कुमार सिंह, निवासी-संजीवनी नर्सिंग होम सिकड़गढ़ टोला, वार्ड नं.-07, पो. +थाना-कहलगांव, जिला-भागलपुर, बिहार शपथ पत्र सं.-21 दिनांक 28.05.2024 द्वारा सूचित करता हूं कि मेरे सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में मेरा नाम मयंक कुमार दर्ज हो गया है जो गलत है। आधार कार्ड एवं आयकर विभाग में मेरा नाम मयंक कुमार सिंह दर्ज है जो सही है। सभी कार्यों एवं उद्देश्यों हेतु अब मैं मयंक कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा ।

मयंक कुमार सिंह।

No. 220-- I, Ravi Kumar, S/o Ram Chandra Singh R/o Village+ P.O.-Tilak Tajpur, P.S.-Runni Saidpur, Sitamarhi, Bihar- 843316 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 11400 dt. 13.12.24 that my name is written in all educational and domicile certificate as Ravi Kumar where as in Aadhar Card as Ravi Shankar Singh. Ravi Kumar and Ravi Shankar Singh both names are same and one person. From now I will be known as Ravi Kumar for all purposes.

Ravi Kumar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 51—571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bihar.gov.in>

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० वा०सं०नि०(स्था०)—I-69/2024—224

वायुयान संगठन निदेशालय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
हवाई अड्डा, पटना— 800014

संकल्प

28 फरवरी 2025

कै० विवेक परिमल, विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) सम्प्रति निलंबित द्वारा विमान चालक के पद पर पदस्थापित रहते हुए अतिविशिष्ट व्यक्तियों यथा महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य महानुभावों के हवाई यात्रा हेतु उपयोग किये जाने वाले राजकीय विमान King Air C-90 A/B VT-EBG के परिचालन हेतु आवश्यक Currency प्राप्त नहीं किया गया, जिसके कारण राजकीय विमान के परिचालन हेतु वाह्य स्रोत से अतिरिक्त व्यय पर Co-pilot मंगाना पड़ता है।

पुनश्च, कै० विवेक परिमल दिनांक-03.01.2025 से लगातार अनधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित हैं, तथा अपना दोनों मोबाईल नम्बर बंद करके रखे हुए हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के क्रम में जिलों से हेलिपैड की NOC एवं Co-Ordinates एवं फोटो तथा विडियो को हेलिकॉप्टर संचालक को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी का वहन उन्हें निदेशालय का उत्तरदायी प्रबंधक होने के नाते करना था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। ऐसा होने से माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हुआ है।

विभागीय पत्रांक-1364 दिनांक 21.01.2025 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए आरोपित पदाधिकारी से बचाव अभिकथन की मांग की गयी थी। कै० परिमल से प्राप्त बचाव अभिकथन की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में वृहद् जाँच की आवश्यकता महसूस की गयी।

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि कै० विवेक परिमल, विमान चालक, वायुयान संगठन निदेशालय (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध संलग्न प्रपत्र-‘क’ में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाये।

3. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रशासी पदाधिकारी, वायुयान संगठन निदेशालय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. कै० परिमल से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हो।

5. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।
6. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाये तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाये।

बिहार—राज्यपाल के आदेश,
डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे, निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 51—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bihar.gov.in>